



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

आवेदन पत्र सं
Application No.

नेताजी सुभाष खेल परिसर
NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
जसोला विहार, नई दिल्ली-110025
JASOLA VIHAR, NEW DELHI-110025

पासपोर्ट आकार
का रंगीन फोटो
चिपकाएँ
PASTE
Passport Size
Colour Photograph

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
FOR OFFICE USE

1. सदस्यता सं.
Membership No.
2. मासिक पास सत्र पास
Monthly Seasonal
 (TICK(✓) ONE)
(एक पर सही (✓) का निशान लगाएँ)
3. तरण ताल सदस्यता सं.
SWIMMING POOL MEMBERSHIP NO.
(for office use only)
4. प्रवेश शुल्क ENTRY FEES
5. रसिद सं. RECEIPT NO.
6. तिथी DATE

परिसर के तरण ताल की सुविधा प्राप्त करने से संबंधित आवेदन पत्र
APPLICATION FOR AVAILABLE FACILITY OF COMPLEX SWIMMING POOL

7. आवेदक का नाम
(साफ अक्षरों में लिखें)
NAME OF THE APPLICANT
8. पिता/पति का नाम
FATHER'S /HUSBAND'S NAME
9. निवास का पता
RESIDENTIAL ADDRESS
पिन/PIN फोन/PH.
10. कार्यालय का पता
OFFICE ADDRESS
पिन/PIN फोन/PH.
11. व्यवसाय OCCUPATION S=SERVICE B=BUSINESS P=PROFESSION, O=OTHER
जन्म तिथी स=सेवा व्या=व्यापार व्या=व्यवसाय, अ=अन्य
12. DATE OF BIRTH 13. AGE
14. प्रातः कालीन या सांध्य कालीन शिफ्ट में से अपनी पसंद की शिफ्ट (✓) निशान लगाएं।
PLEASE (✓) YOU PREFERENCE FOR MORNING & EVENING SHIFT
MORNING SHIFT () EVEING SHIFT ()

पावती / ACKNOWLEDGEMENT SLIP
दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
नेताजी सुभाष खेल परिसर तरण ताल
N.S.S.C. JASOLA 'A' SWIMMING POOL

आवेदन पत्र सं
Application No.

श्री/श्रीमती/कुमारी से एन.एस.एस.सी. तरण ताल की सुविधा प्राप्त करने के आवेदन पत्र और
.....रु0 (केवल रु0) सुविधा प्राप्त हुए। कार्ड दिनांक.....
को या उसके बाद प्राप्त किया जा सकता है।

Received from Mr/Ms/Mrs Application for availing of N.S.S.C Swiming
Pool and amount of Rs.(Rupees.....
only in cash) Paid to be collected on or after

प्राप्तकर्ता लिपिक के हस्ताक्षर
(Signature of the recieving clerk)

घोषणा/DECLARATION

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि :-

I hereby certify that:-

- मुझे तैरना आता है/नहीं आता है और तैराकी मैं अपने जोखिम पर करूंगा।
I Know /do not know swimming and will swim at my own risk
- मैंने स्वीमिंग पूल के नोटिस बोर्ड पर लगाए गए नियमों एवं विनियमों और विशेष अनुदेशों को पढ़ लिया है एतद्द्वारा उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
I have read the rules & regulations and special intruction placed at Notice Board Swimming Pool and hereby undertake to abide by them.
- आवेदन पत्र में दिये गए सभी विवरण मेरे समस्त ज्ञान के अनुसार सही हैं। यदि विवरण गलत पाए गए तो मेरी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
All the particular mentioned in the application from are correct to the best of my knowledge, if found wrong my membership may be cancelled.
- अवश्यक के मामले में मेरा पुत्र/पुत्री तैरना जानता/जानती है/नहीं जानता/जानती है और आपके तरण-ताल में हमारे जोखिम पर तैरेगा/तैरेगी।
In case MINOR
My son/daughter..... knows/does not know swimming, and he/she shall be swimming in your Pool at our risk.
- क्या प्रशिक्षण चाहिए? (हां/नहीं पर (✓) सही का निशान लगाएं।
Coaching required Please mark (✓) Yes/No

(आवेदक/अभिभावक के हस्ताक्षर)
(Signature of Applicant/Parents)

चिकित्सा प्रमाणपत्र MEDICAL CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी आयु वर्ष कि चिकित्स जांच की है और वह किसी गंभीर/संक्रामाक रोग अथवा किसी ऐसी विकलांगतासे पीड़ित जो उसके तैरने में बाधक हो। अतः वह तैरने के लिए योग्य है।

This is to certify that I have examined Sh./Smt/Km..... age..... and found that he/sher is not suffering from any Chronic/Contaious disease or/any. disability which prevents him/her from swimming. As such he/she is fit for swimming.

तिथि
Date.....

डॉक्टर के हस्ताक्षर
नाम तथा मोहर और पंजीकरण सं.
Doctor's Signature
name & Stamp with Regn. No.

टिप्पणी :

Note :

- इस प्रमाण पत्र पर पंजीकृत एम.बी.बी.एस द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।
This certificate has to be signed by Regd. MBBS Doctor.
- तैराकी पास के लिए कृपया इस फार्म के साथ एक अतिरिक्त फोटो (टिकट आकार का) संग्रह करें।
Please attach a spare copy of photo (ticket size) for swimming pass alongwith this form
- इस आवेदन पत्र के साथ लेखा विभाग (एन.एस.एस.सी.) का बेबाकी प्रमाण पत्र संग्रह करें
Please attach a No Dues Certificate from asstt Accounts Officer (N.S.S.C) alongwith this form.